



BE SWASTH HEALTHCARE LIMITED

CIN: L93000DL1985PLC021397

Date: 29th May, 2026

To,

The Head - Listing & Compliance

Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI)
Vibgyor Tower, 4th Floor,
Plot No. C-62, G - Block,
Opp. Trident Hotel
Bandra Kurla Complex
Mumbai-400098

Symbol: BESWASTH ISIN: INE288U01011

Sub: Audited Financial Results-News Paper Publication for the quarter and year ended 31st March, 2026

Dear Sir/Ma'am,

In continuation to our letter dated 19th May, 2026, regarding approval of Audited Financial Results for quarter and year ended March 31st, 2026; please find enclosed the newspaper advertisement published, in compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 29-05-2026.

This is for your information and records.

Thanking You

Yours Faithfully,

FOR BE SWASTH HEALTHCARE LIMITED.

Renu

**Company Secretary &
Compliance Officer**



EMBASSY DEVELOPMENTS LIMITED

(Formerly known as Equinox India Developments Limited, and earlier Indiabulls Real Estate Limited)

CIN: L45101HR2006PLC095409

Registered Office: Office No 01-1001, WeWork, Blue, One Square, Udyog Vihar Phase 4 Rd, Gurugram, Haryana - 122016

Tel: (0124) 4609559 | **Email:** ir@embassyindia.com

Website: <https://embassyindia.com/>

NOTICE TO SHAREHOLDERS

SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-PODI/3750/2026 dated January 30, 2026, another special window is now open for a period of one year, from 5th February, 2026 to 4th February, 2027, to further facilitate the investors to get their rightful access to their shares.

This facility of a special window is for transfer and dematerialization ("Demat") of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019.

The special window shall also be available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Kindly refer to the matrix below regarding the applicability of lodgement:

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for transfer before April 01, 2019?	Original Security Certificate Available?	Eligible to lodge in the current window?
Before April 01, 2019	No (It is fresh lodgement)	Yes	Yes
Before April 01, 2019	Yes (It is rejected/ returned earlier)	Yes	Yes
Before April 01, 2019	Yes	No	No
Before April 01, 2019	No	No	No

Kindly note that the request(s) which are accompanied by original certificate(s) along with transfer deeds and relevant supporting documents as mentioned in the above-mentioned Circular, will only be considered under this special window. The securities so transferred shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien-marked/ pledged during the said lock-in period

Eligible shareholders who wish to avail this opportunity may submit the transfer request along with requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, i.e., KFIN Technologies Limited, as per the following details:

This facility of a special window is for transfer and dematerialization ("Demat") of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019.

The special window shall also be available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Kindly refer to the matrix below regarding the applicability of lodgement:

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for transfer before April 01, 2019?	Original Security Certificate Available?	Eligible to lodge in the current window?
Before April 01, 2019	No (It is fresh lodgement)	Yes	Yes
Before April 01, 2019	Yes (It is rejected/ returned earlier)	Yes	Yes
Before April 01, 2019	Yes	No	No
Before April 01, 2019	No	No	No

Kindly note that the request(s) which are accompanied by original certificate(s) along with transfer deeds and relevant supporting documents as mentioned in the above-mentioned Circular, will only be considered under this special window. The securities so transferred shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien-marked/ pledged during the said lock-in period

Eligible shareholders who wish to avail this opportunity may submit the transfer request along with requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, i.e., KFIN Technologies Limited, as per the following details:

Name & Postal Address	Kfin Technologies Limited Address: Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032.
Helpline No.	+91-40-67162222 / 79611000
For any query	Raise request at: https://iris.kfintech.com/client-services/isc Send an email at: inward.nis@kfintech.com

For Embassy Developments Limited
sd/-
Vikas Khandelwal
Company Secretary
ACS 18475

Place: Gurugram
Date: May 29, 2026

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

INTERNATIONAL DATA MANAGEMENT LIMITED

CIN: L72300DL1977PLC008782

Regd. Off.: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi -110019

Phone No.: 011-26444812, E-mail: ldmcomplianceofficer@gmail.com, **Website:** www.ldmlimited.in

Audited Financial Results for the Quarter & Year ended March 31, 2026

[Pursuant to Regulation 47 (1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2026

(Rs. in Lacs)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2026 Audited	31.12.2025 Un-audited	31.03.2025 Audited	31.03.2026 Audited
1	Total Income from operations	0	0	0.01	0
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(4.03)	(4.26)	(2.93)	(13.87)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4.03)	(4.26)	(2.93)	(13.87)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4.03)	(4.26)	(2.93)	(13.87)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(4.03)	(4.26)	(2.93)	(13.87)
6	Equity Share Capital	220	220	220	220
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			(657.60)	(643.73)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operation)- 1. Basic; 2. Diluted;	(0.18) (0.18)	(0.19) (0.19)	(0.13) (0.13)	(0.63) (0.58)

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and the same is also available on the Company's website i.e. www.ldmlimited.in.

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in their respective meetings held on May 28, 2026 and have been subjected to Audit by the Statutory Auditors of the Company and the Auditors have issued an unmodified audit report.

3. Previous year/periods figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary.



For International Data Management Limited
sd/-
Sunil Kumar Shrivastava
Director
DIN: 0025961

Place : New Delhi
Date : May 28, 2026



INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED

CIN : L74899DL1984PLC019218 GSTIN : 07AAAC0149R1ZB

REGD. OFFICE : MGF HOUSE, 4/17-B, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

PH.: 41520070 FAX : 41503479

Website: www.indialease.com, **E-mail:** info@indialease.com

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Rs. in Lakhs except EPS)

S. No.	Particulars	For the Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2026 (Audited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	22.27	15.47	14.58	65.33
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Exceptional items and tax)	6.11	0.18	(6.60)	2.10
3	Net Profit/(Loss) for the period (after exceptional items and before tax)	6.11	0.18	(6.60)	2.10
4	Net profit / loss for the period after tax	6.11	0.18	(6.60)	2.10
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(34.14)	0.18	(50.90)	(73.95)
6	Paid-up Equity Share Capital	1470.02	1470.02	1470.02	1470.02
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous financial year	-	-	-	(533.66)
8	Earning per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised) Basic Diluted	0.04 0.04	0.00 0.00	(0.04) (0.04)	0.01 0.01

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Standalone Audited Quarterly and Yearly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Audited Quarterly and Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and also at the Company's website www.indialease.com.

By order of the Board of Directors For India Lease Development Limited
sd/-
Rajiv Gupta
Chairman
DIN: 00022964

Place : New Delhi
Date : May 28, 2026



AASHRI CAPITAL LIMITED

CIN : L65923DL1972PLC317436

Regd. Office : Select City Walk, 6th Floor, A-3, District Centre, Saket, New Delhi-110017

STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31.03.2026

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2026

(Rs. in Lacs)

S. No.	Particulars	For the Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2026 Audited	31.12.2025 Unaudited	31.03.2025 Audited	31.03.2026 Audited
1	Total income from operations (net)	646.42	207.66	4,295.48	1,145.64
2	Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,197.87	638.37	264.31	3,026.37
3	Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,197.87	638.37	264.31	3,026.37
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	1,646.56	475.96	221.58	2,256.86
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,646.56	475.96	221.58	2,256.86
6	Paid-up equity share capital (11202540 equity shares of Rs. 10)	1,120.25	1,120.25	1,120.25	1,120.25
7	Reserve excluding revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	-
8	Earnings Per Shares (EPS) (for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	14.70 14.70	4.25 4.25	1.98 1.98	20.15 20.15

SEGMENT REPORTING

1. Segment Revenue
a) Segment-NBFC
b) Segment- Real Estate
c) Unallocated
Total
Less: Inter Segment Revenue
Gross Revenue

2. Segment Results
a) Segment-NBFC
b) Segment- Real Estate
c) Unallocated
Profit/Loss Before Tax

3. Segment Assets
a) Segment-NBFC
b) Segment- Real Estate
c) Unallocated
Total Assets

4. Segment Liabilities
a) Segment-NBFC
b) Segment- Real Estate
c) Unallocated
Total Liabilities

NOTES:

1. The above financial results for the quarter and year ended on 31.03.2026 have been reviewed by the audit Committee and approved by the board at their respective meetings held on 28.05.2026.

2. The Limited Review of the results has been completed by the Statutory Auditors of the Company.

3. As per Indian Accounting Standard (IndAS) 108 "Operating Segment", the Company has two operating segments namely NBFC and Real Estate.

4. The Company has adopted Ind AS 17 "Leases" effective 1 April 2019, as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2019, using modified retrospective method. The adoption of this standard did not have any material impact on the profit of the current quarter.

5. Previous period figure has been regrouped/rearranged wherever necessary.

Place : Delhi
Date : 28.05.2026

CORRIGENDUM

Corrigendum to Filing of the Audited Financial Results of BCC Fuba India Limited (Scrip Code: 517246) for the quarter and year ended on 31st March, 2026 published in the newspapers dated May 28, 2026 as per the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015

In Note no. 1 of the published AFR, "Quarterly/Nine Months unaudited Financial Results" should be read as "Quarterly/Year ended audited Financial Results".

Except the change to be made in the Newspaper Published Clippings as specified above, all other contents remain unchanged.

F MEC INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

CIN:L65100DL1993PLC053936

Registered Office: 908, 9th Floor, Mercantile House, 15, K.G. Marg, New Delhi, Delhi-110001, India

Website: www.fmecinternational.com, Email: info@fmecinternational.com, Contact: 011-49954225

Extract of unaudited/audited financial results for the quarter and financial year ended 31st March 2026

(Rs. in Lacs)

PARTICULARS	Quarter ended		Year ended	
	31.03.2026 (Unaudited)	31.03.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
Revenue from operations	410.80	173.91	1,080.18	663.58
Profit before tax	102.61	37.97	299.35	216.72
Profit after tax	75.57	28.33	221.49	161.85
Total Comprehensive Income (Comprising profit for the period and other comprehensive income after tax)	75.57	28.33	221.49	161.85
Paid-up equity share capital	889.18	889.18	889.18	889.18
Other equity as shown in the balance sheet of the previous year	-	-	721.35	498.86
Earnings Per Share (Not annualised) (Face value of Rs. 10 each)	0.8499	0.3186	2.4910	1.8203
Basic (Rs.)	0.8499	0.3186	2.4910	1.8203
Diluted (Rs.)	0.8499	0.3186	2.4910	1.8203

NOTES:

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meetings held on 28 May 2026. The financial results for quarter ended 31 March 2026 have been subjected to audit by statutory auditor, pursuant to regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other recognised accounting practices generally accepted in India along with the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time.

By order of the Board
F MEC INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LTD
sd/-
(Apoorva Bansal)
Managing Director
DIN : 01982312

Place: New Delhi
Date: 28/05/2026

BE SWASTH HEALTHCARE LIMITED

CIN: L93000DL1985PLC021397

Regd. Office: 812, Aggarwal Cyber Plaza-I, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034

Email: cs@be-swasth.com, **Contact No:** 011-46142960

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Amount in Lacs except EPS)

PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended	
	31-March-2026 Audited	31-December-2025 Un-Audited	31-March-2025 Audited	31-March-2026 Audited
Total Income from operations	2.25	2.25	9.71	9.01
Net Profit/(Loss) Before Exceptional and Extraordinary Items and Tax	(4.30)	(2.96)	2.63	(10.44)
Net Profit/(Loss) after taxes, minority interest and share of profit/(loss) of associates	(4.30)	(2.96)	2.63	(10.59)
Total Comprehensive Income for the period	(4.30)	(2.96)	2.63	(10.59)
Paid-up equity share (face value ₹ 10/- each)	111.90	111.90	111.90	111.90
Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	-
Earning Per Share (of ₹ 10/- each) (not annualised)	(0.38)	(0.26)	0.24	(0.95)
A) Basic B) Diluted	(0.38) (0.38)	(0.26) (0.26)	0.24 0.24	(0.95) (0.95)

NOTES:

1. The above Audited Financial Results of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on Thursday, May 28, 2026. The Limited Review Report of the Statutory Auditors is being filed with the Metropolitan Stock exchange of India Limited.

2. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026 along with the Limited Review Report of the Statutory Auditors is available on the website of the Stock Exchange i.e. www.mseil.in and of the Company i.e. www.be-swasth.in.

Place : New Delhi
Date : 28.05.2026

AMU AMU LEASING PRIVATE LIMITED

CIN:U74899DL1993PTC055361

Corporate Office: 2nd Floor IREO Grand View Tower Sector-58 Gurugram, HR-122001

Reg Off: RR-12, Mianwali Nagar, Near Peeragarhi Chowk, New Delhi, India, Pin - 110087

Tel.: +91-98181-11272 | **Website:** www.amuleasingpl.com

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the quarter ended		Year ended	
	31.03.2026 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)
Revenue from operations	697.25	647.26	689.12	2,513.00
Interest Income	114.76	134.17	100.82	470.60
Fees & Commission income	234.91	75.91	102.43	386.28
Total revenue from operations	1,046.92	857.34	892.37	3,369.88
Other income	79.24	41.18	48.29	175.86
Total income	1,126.16	898.52	940.66	3,545.74
Expenses	158.58	184.13	135.78	655.89
Employee benefit expenses	307.14	371.94	397.96	1,355.28
Finance costs	23.60	20.04	22.63	85.79
Depreciation and amortization expenses	-349.60	863.66	349.75	1,407.53
Other Expenses	139.66	1,439.77	906.12	3,504.49
Total expenses	986.50	-541.25	34.54	41.25
Profit before tax	1,126.16	898.52	940.66	3,545.74
Tax expense:	60.14	-	-17.24	60.14
Current Tax	24.00	-40.34	6.66	-55.90
Deferred Tax	2.06	-	7.71	2.06
(Excess)/Short provision of tax relating to earlier years	86.20	-40.34	-2.87	6.30
Total Tax expense	900.30	-500.91	37.41	34.95
Profit after tax for the period/year	900.30	-500.91	37.41	34.95
Earnings per equity share (not annualized) (Nominal value of share Rs.100)	84.27	-47.64	3.76	-12.08
Basic	84.27	-47.64	3.76	-12.08
Diluted	84.27	-47.64	3.76	-12.08

NOTE:

• The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

• The above results have been reviewed and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 27, 2026

For and on behalf of the board of Directors
sd/-
Nehal Gupta
Managing Director

Date: 27th May, 2026
Place: New Delhi

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015, HOUSING FINANCE

Branch Office: Office No. 311 & 312, ITL North Tower, A-9 building, NSP Pitampura-110034

Contact details: Raksh Gupta (ZRM) : 9873925255 | Akash Mendiratta (RLM) : 9625339424

Pawan Kumar Pandey (RRM) : 8010562716. Email: Auction@hindujahousingfinance.com

NOTICE OF SALE THROUGH PRIVATE TREATY

SALE OF IMMOVABLE ASSETS MORTGAGED TO HHFL UNDER THE SARFAESI ACT, 2002 READ WITH PROVISIO TO RULE 8(B) AND 9(1).

The undersigned, as Authorized Officer of HHFL, has taken possession of the schedule property under Section 14(1) of the SARFAESI Act. Public at large is hereby informed that the secured property described in the Schedule is available for sale through Private Treaty/Public E-Auction, on terms available to HHFL, for realization of its dues on an "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis. **Standard Terms & Conditions:** 1. Sale will be conducted strictly on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis. 2. Purchaser must deposit 10% of the offered amount along with the application and KYC documents. This will be adjusted against the 25% deposit required upon acceptance. No interest shall be payable on the EMD. 3. On acceptance of the offer by HHFL, purchaser must deposit 25% of the sale consideration (inclusive of the initial 10%) by the next working day. 4. Balance 75% of the sale consideration must be paid within 15 days of confirmation of sale. 5. Failure to remit amounts within stipulated timelines will result in automatic forfeiture of all deposits made, including the initial 10% and the property may be resold without further notice. 6. If HHFL does not accept the offer, the initial 10% deposit will be refunded without interest. 7. For bids exceeding Rs. 50,00,000/- the successful purchaser must remit 1% TDS under Section 194-IA of the Income Tax Act. 8. The property is sold with all existing and future encumbrances, whether known or unknown to HHFL. HHFL shall not be responsible for any third party claims, rights, or statutory dues. 9. Purchaser must conduct independent due diligence on all aspects of the property. No claims will be entertained later. 10. HHFL reserves the right to reject any offer or cancel the auction without assigning reasons. 11. Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website www.bankauctions.com or Auction provided by the service provider M/s C1 India Pvt. Ltd. 12. The bidders may participate from their place of choice through online portal. Secured Creditor/service provider shall not be held responsible for the any internet connectivity issue. 13. For any details on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider M/s C1 India Pvt. Ltd. having its corporate office at Plot No. 68, 3rd Floor, Sector -44, Gurgaon, Haryana-122003 (Contact Person Mr. Mithalesh, Mobile No. 7080804466, Email: Mithalesh.kumar@c1india.com, Email: in@c1india.com, Prabhakaran.Malashamy@c1india.com & Support (Helpline) Mobile No. +91-7291981124/25/26, Support Email - Support@bankauction.com. 14. For participating in the e-auction sale, the intending bidders should register their name at <https://www.bankauctions.com> well in advance and shall get the user ID and password. Intending bidders are advised to change only the password immediately upon receiving it from the service provider. 15. For participating in e-auction, intending bidders have to deposit a refundable Earnest Money Deposit (EMD) i.e. 10% OF RESERVE PRICE (as mentioned above) shall be payable by interested bidders through Demand Draft/NEFT/RTGS in favour of "Hinduja Housing Finance Limited". 16. Interested parties may contact the Authorized Officer for details and submit offer, EMD along with KYC documents on or before 12-06-2026 at 5.00 p.m. 17. Successful auction Purchaser shall bear all stamp duty, registration fees, taxes and other statutory expenses related to the mortgaged property. 18. The Borrowers/Mortgagors' right of redemption under Section 13(8) of the SARFAESI Act stands extinguished upon the date of publication of this notice as per the latest judicial mandates. 19. Sale shall be conducted in accordance with the provisions of the SARFAESI Act and Rules.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY (Secured Asset): Built up L type first floor (front side) without roof/terrace rights, built on land area measuring 538 square feet (that is 49.98 square meters) out of total land area measuring 66.5 square yards, of built up property bearing T-65, in Block T, out of Kharsa number 6 and 9 situated in the area of Village Bindapur, colony known as Uppan Nagar in Block T, New Delhi-110059 bounded as East:- Property T-64/other's property, West:- Suk Bazar Road, North:- Entry/road, South:- other's property

Outstanding amount: Rs. 27,70,974 (Rupees Twenty Seven Lakh(s) Seventy Thousand Nine Hundred Seventy Four Only) as on 05.10.2024

Reserve Price: Rs. 16,00,000/- (Rupees Sixteen Lakh(s) Only)

EMD: Rs. 1,60,000 (Rupees One Lakh Sixty Thousand Only)

LOAN NO: DL/KPR/JAIT/A000000053, CO/CPC/CPDF/A000007537, EMD Deposition Last Date: 12-06-2026 till 1700 hrs. Date/Time of E-Auction: 17-06-2026, 11:00hrs-1300 hrs. Bid Increase Amount: Rs. 10,000/-

CO/CPC/CPDF/A000003906. Borrowers Name: 1. HAPPY JAIN & Mrs ANITA JAIN

Place: Delhi Date: 28.05.2026 sd/- Authorised Officer: HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

TRUHOME FINANCE LIMITED

(Formerly Known As Shriram Housing Finance Limited)

Reg.Off.: Srinivasa Tower, 1st Floor, Door No. 5,

रीटा फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड

सीआईएन : L67120DL1981PLC011741

पंजीकृत कार्यालय :325, तीसरी मंजिल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110 085

कॉर्पोरेट कार्यालय :303, तिलकराज कॉम्प्लेक्स, सूर्य स्थ के सामने, पंचवटी फर्स्ट लेन,

अंबावाडी, अहमदाबाद - 380 0 06 दूरभाष :+919810260 127

ई-मेल :www.ritafinance.in | वेबसाइट :www.ritafinance.in

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन ऑडिट किए गए वित्तीय परिणामों का विवरण (रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 31.12.2025 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	38.330	24.610	34.060	132.590	106.440
2.	साधारण से शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पहले की गतिविधियाँ	15.730	19.650	25.480	92.040	64.850
3.	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण वस्तुओं के बाद)	12.250	14.740	25.480	69.480	60.310
4.	इक्विटी शेयर पूंजी	1000.000	1000.000	1000.000	1000.000	1000.000
5.	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाया गया)	0.000	0.000	0.000	705.640	613.610
6.	प्रति शेयर आय (असाधारण वस्तुओं से पहले) (प्रत्येक 10 रुपये)	0.120	0.150	0.250	0.690	0.600
	वैसिक:	0.120	0.150	0.250	0.690	0.600
7.	प्रति शेयर आय (असाधारण वस्तुओं के बाद) (प्रत्येक 10 रुपये)	0.120	0.150	0.250	0.690	0.600
	वैसिक:	0.120	0.150	0.250	0.690	0.600
	डाल्ट्रैड:	0.120	0.150	0.250	0.690	0.600

नोट: उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत 31.03.2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। 31.03.2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी की वेबसाइट: www.ritafinance.in

बीएसई लिमिटेड: www.bseindia.com

मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड: https://www.mseil.in/

नोट्स:

- उक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और उसके बाद 27 मई, 2026 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार, वैधानिक लेखा परीक्षा में 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए रीटा माइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड के वित्तीय परिणामों का ऑडिट किया है। उक्त अवधि के लिए जारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यता नहीं है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
रीटा फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड
हस्ता/-
संदीपमाई पटेल (निदेशक)
सीआईएन: 10849576

तिथि: 27.05.2026

स्थान: अहमदाबाद



इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड

CIN : L74899DL1984PLC019218 GSTIN : 07AAAC0149R1ZB

पंजीकृत कार्यालय: एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

फोन: 41520070 फैक्स: 41503479

वेबसाइट: www.indialease.com, ई-मेल: info@indialease.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए

स्टैंडअलोन ऑडिट वित्तीय परिणामों का सारांश

(₹ लाखों में ईपीएस छोड़ कर)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		31.03.2026 (अंकीकृत)	31.12.2025 (अनअंकीकृत)	31.03.2025 (अंकीकृत)	31.03.2026 (अंकीकृत)
1	संचालन से कुल आय (शुद्ध)	22.27	15.47	14.58	65.33
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण आइटम और कर से पूर्व)	6.11	0.18	(6.60)	2.10
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण आइटम के पश्चात् एवं कर से पूर्व)	6.11	0.18	(6.60)	2.10
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / हानि कर के पश्चात्	6.11	0.18	(6.60)	2.10
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (शामिल अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (टेक्स के बाद)	(34.14)	0.18	(50.90)	(73.95)
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1470.02	1470.02	1470.02	1470.02
7	सुरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त) जैसा कि पूर्व वित्तीय वर्ष की अंकीकृत बैलेंस शीट में उद्घृत है।	-	-	-	(533.66)
8	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक 10/-रु) (वार्षिक नहीं)	0.04	0.00	(0.04)	0.01
	वैसिक	0.04	0.00	(0.04)	0.01
	डायल्ट्रैड	0.04	0.00	(0.04)	0.01

टिप्पणी: उपरोक्त, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए गए स्टैंडअलोन ऑडिटेड तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। स्टैंडअलोन ऑडिटेड तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.indialease.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड
हस्ता/-
राजीव गुप्ता
चेयरमैन
DIN: 00022964



यूनिफिज कैपिटल इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: L17111DL1982PLC013790

5वीं मंजिल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110019

फोन: +91149953454; +91-7373737316

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु

लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(₹. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 लेखापरीक्षित	31.12.2025 अलेखापरीक्षित	31.03.2025 लेखापरीक्षित	31.03.2026 लेखापरीक्षित	31.03.2025 लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	15,200.56	14,750.29	4,538.09	51,156.96	12,135.32
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवादित मदों के पूर्व)	2,376.10	3,817.31	924.40	11,733.25	2,663.45
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के पश्चात)	2,376.10	3,817.31	924.40	11,733.25	2,663.45
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के पश्चात)	1,921.63	2,706.47	737.55	8,714.24	2,005.58
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [लाभ (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	1,926.17	2,703.20	731.35	8,712.41	1,999.38
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य)	4,428.81	4,428.81	885.36	4,428.81	885.36
7	आरक्षितियां	-	-	-	11,988.42	6,869.14
8	आप प्रति शेयर (माचं को छोड़कर वार्षिकीकृत नहीं) (नोट सं. 5 का संदर्भ लें)	4.34	6.11	1.86	19.69	5.07
	वैसिक इक्विटी	4.34	6.11	1.86	19.69	5.07
	डाल्ट्रैड इक्विटी	4.32	6.11	1.86	19.60	5.07

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण है, जिसकी 27.05.2026 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया गया है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा परिणामों की लेखापरीक्षा की गयी है और असंशोधित रिपोर्ट जारी की गई है।
- वित्तीय परिणाम समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- वर्तमान अवधि वर्गीकरण के अनुरूप करने के लिए, जहां भी आवश्यक समझ गया, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
यूनिफिज कैपिटल इंडिया लिमिटेड
हस्ता/-
मनीष आर्याल
निदेशक
डीआईएन: 09197754



"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

इंटरवर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड

CIN: L72900DL1995PLC067808

पंजी. कार्यालय: 701, अग्रवाल बिल्डिंग, 19, बाराहंडा रोड, कान्ट-पैरा, नई दिल्ली-110001

टूर. सं.: 011-43571044-45, फैक्स सं.: 011-43571047, वेबसाइट: www.interworlddigital.in,

ईमेल: interworlddigital.in@gmail.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वित्त वर्ष के लिए एकल अंकीकृत वित्तीय परिणामों का सारांश (₹. लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2026 (अंकीकृत)	समाप्त तिमाही 31.03.2025 (अंकीकृत)	समाप्त वर्ष 31.03.2026 (अंकीकृत)	समाप्त वर्ष 31.03.2025 (अंकीकृत)
परिचालन से कुल आय	0.00	0.18	0.00	2.86
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, असाधारण आय और/या अपवादित मदों से पहले)	-7.74	-6.48	-26.05	-22.24
कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	-7.74	-6.48	-26.05	-22.24
(असाधारण आय और/या अपवादित मदों के बाद)	-7.74	-6.48	-26.05	-22.24
(असाधारण आय और/या अपवादित मदों के बाद)	-7.74	-6.48	-26.05	-22.24
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	-7.74	-6.48	-26.05	-22.24
इक्विटी शेयर पूंजी	4,783.77	4,783.77	4,783.77	4,783.77
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	0.00	0.00	0.01	0.00
मूल: तल:	0.00	0.00	0.01	0.00

टिप्पणी: उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के अंकीकृत वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। उपरोक्त वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बीएसई की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.interworlddigital.in पर उपलब्ध है और दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन करके भी इस तक पहुंचा जा सकता है।



बी.पी. कैपिटल लिमिटेड

CIN: L74899HR1994PLC072042

पंजी. कार्यालय: एफ्टी नं. 138, लेज-ला-वेस्ट इन्टरनैशनल स्क्वायर, सोहन, हरियाणा, मेवात, एचसाट 122103 ऑफिस फोन: 0124-2362471; वेबसाइट: www.bpcapital.in, ईमेल: bpcapitallimited@gmail.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए एकल अंकीकृत वित्तीय परिणामों का सारांश (₹. लाख में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	31.03.2026 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
संचालन से कुल आय	0	0	0	0
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, असाधारण और/या अपवादित मदों से पहले)	(5.15)	(4.49)	(16.75)	(15.09)
कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	(5.15)	(4.49)	(16.75)	(15.09)
(असाधारण और/या अपवादित मदों के बाद)	(5.15)	(4.49)	(16.75)	(15.09)
(असाधारण और/या अपवादित मदों के बाद)	(5.15)	(4.49)	(16.75)	(15.09)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	(5.15)	(4.49)	(16.75)	(15.09)
इक्विटी शेयर पूंजी	601.16	601.16	601.16	601.16
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	(5.15)	(4.49)	(16.75)	(15.09)
मूल: तल:	-0.09	-0.07	-0.28	-0.27

टिप्पणी: उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के अंकीकृत वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.bpcapital.in पर उपलब्ध है। इसे भी स्कैन करके भी इस तक पहुंचा जा सकता है।



स्थान: हरियाणा तिथि: 27.05.2026

बीएसई लिमिटेड

डीआईएन: 00090423



एसपीआर ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(पूर्व में श्रीराम पिस्टन्स एंड रिस लिमिटेड)

CIN : L29112DL1963PLC004084

पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001, फोन : +91 11 2331 5941

E-mail: compliance.officer@shrirampistons.com, Website: www.shrirampistons.com

वित्तीय विंडो - भौतिक शेयरों के हस्तांतरण हेतु पुनः प्रस्तुतिकरण

सेबी परिसत्र संख्या HO/38/13/1(2)2026-MIRSD-POD/13/3750/2026 दिनांक जनवरी 30, 2026 के अनुसार, केवल पुनः जमा किए जाने वाले ट्रांसफर डीजस हेतु फरवरी 5, 2026 से फरवरी 4, 2027 तक एक विशेष विंडो खोली गई है। यह सुविधा उन ट्रांसफर डीजस पर लागू होगी, जिन्हें मूल रूप से अप्रैल 1, 2019 की समय सीमा से पहले जमा किया गया था, लेकिन दस्तावेजों / प्रक्रिया में कमी अथवा अन्य कारणों से अस्वीकृत, वापस कर दिया था या लंबित छोड़ दिया गया था, तथा जो प्रतियोगिता के अंतरण हेतु दस्तावेजों को पुनः जमा करने की मार्च 31, 2021 की विस्तारित समय सीमा से भी चूक गए थे। इस विशेष विंडो के अंतर्गत भौतिक शेयरों के हस्तांतरण हेतु अनुरोध प्रस्तुत करते समय, अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक मूल शेयर प्रमाणपत्रों को निम्नानुसार जमा करना है :

हस्तांतरण विंडो की शुरुआत तिथि	क्या आपने अप्रैल 1, 2019 से पहले हस्तांतरण के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया है ?	क्या आपने अप्रैल 1, 2019 से पहले हस्तांतरण के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया है ?	क्या आपने अप्रैल 1, 2019 से पहले हस्तांतरण के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया है ?
नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मामले इस विशेष विंडो के अंतर्गत विचार नहीं किए जाएंगे :

- हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरितकर्ता के बीच विवाद से संबंधित मामले।
- निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (EPPF) में हस्तांतरित प्रतियोगिता।

नोट : इस अवधि के दौरान पुनः प्रस्तुत सभी शेयरों को हस्तांतरण-कम-डिमेंट माध्यम से संसाधित किया जाएगा। वे हस्तांतरण के बाद केवल डिमेंटरियालाइज्ड (डिमेंट) रूप में जारी किए जाएंगे और उन पर एक वर्ष का लॉक-इन लागू होगा। अतिरिक्त जानकारी या सहायककरण के लिए, संबंधित शेयरधारक निम्नलिखित पता पर कंपनी या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं :

एसपीआर ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम पिस्टन्स एंड रिस लिमिटेड) 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, अंबावाला एक्सप्रेसवे, तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, नई दिल्ली-110 005, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

कृते एसपीआर ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम पिस्टन्स एंड रिस लिमिटेड)

हस्ता/-
(फैक्स नं. 011-4647 8423)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्य सं.: F-4647

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: मई 28, 2026

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: म